



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 पौष 1941 (श10)  
(सं0 पटना 16) पटना, शुक्रवार, 10 जनवरी 2020

---

सं0 एल/एच0जी0-14-11/2017-119

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

---

संकल्प

7 जनवरी 2020

विषय:- बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के पदाधिकारियों को वेतन लेवल-9 (जिला समादेष्टा) से वेतन लेवल-13 (वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा) तक में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति की अनुशंसा/विचारण हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन।

वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-4685, दिनांक-25.06.2005 एवं संकल्प ज्ञापांक-7566, दिनांक-14.07.2010 के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के पदाधिकारियों को वेतन लेवल-9 (जिला समादेष्टा) से वेतन लेवल-13 (वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा) तक में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति की अनुशंसा/विचारण हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

- |  |         |
|--|---------|
| (1) अध्यक्ष -सह - सदस्य, राजस्व पर्यद, बिहार-  | अध्यक्ष |
| (2) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना -   | सदस्य   |
| (3) महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना -   | सदस्य   |
| (4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के नहीं हों - | सदस्य   |

(5) अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी, जो विभाग द्वारा मनोनीत किए जाएंगे – सदस्य

(6) आंतरिक वित्तीय सलाहकार –

सदस्य

2. इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरूप बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति की अनुशंसा/विचारण हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश/संकल्प अवक्रमित समझे जाएंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राज-पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विमलेश कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 16-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>